

ये अव्यक्त इशारे

श्रेष्ठ स्वमानधारी, सम्मानदाता बनो

14-06-2023

स्वमानधारी पुण्य आत्मा, रहमदिल दाता होने कारण – गिरे हुए को ऊंचा उठायेंगे। “क्यों गिरा”, “गिरना ही चाहिए”, “कर्मों का फल भोग रहे हैं”, “करेंगे तो जरूर पायेंगे”, स्वमानधारियों के संकल्प वा बोल इस प्रकार के नहीं हो सकते। उनमें रोब का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी को देह-अभिमान कभी आ नहीं सकता।

**Be one with elevated self-respect and
continue to regard to everyone.**

Because a charitable soul stable in his self-respect is a merciful bestower, he will uplift those who have fallen. Those who are in their self-respect will never have thoughts or speak words such as, “Why did you fall? You had to fall! You are suffering for your own actions. If you do something, you will definitely receive the return of it.” They will not have the slightest trace of bossiness. Those who are in their self-respect will never become body conscious.